

इसे वेबसाईट www.govtpressmp.nic.in से भी डाउन लोड किया जा सकता है.



मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 497]

भोपाल, मंगलवार, दिनांक 28 अक्टूबर 2014—कार्तिक 6, शक 1936

मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग
“निर्वाचन भवन”

58, अरेरा हिल्स, भोपाल (म. प्र.)—462 011

आदेश

भोपाल, दिनांक 28 अक्टूबर 2014

महत्वपूर्ण
नगरपालिका निर्वाचन

क्र. एफ-55-04-2004-तीन-न.पा.-1086.—मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा मध्यप्रदेश नगरपालिका निर्वाचन नियम, 1994 के नियम 14 के अन्तर्गत प्राप्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, आयोग द्वारा जारी किये गये आदेश क्रमांक एफ-108-तीन-96-न.पा.-2481, दिनांक 29 जून 2000 के अन्तर्गत दी गई सारणी के सरल क्रमांक (3) के (ii) राजस्व अनुविभाग के मुख्यालय वाली नगर परिषद् के लिए एवं (iii) राजस्व अनुविभाग के मुख्यालय के बाहर की नगर परिषद् के लिए कालम नं. (4) में उल्लेखित अधिकारियों के अलावा कालम नं. (3) में उल्लेखित रिटर्निंग आफिसर (नगरपालिका) की सहायता के लिए निम्न अधिकारियों को सहायक रिटर्निंग आफिसर (नगरपालिका) के रूप में नियुक्त करने हेतु जिला निर्वाचन अधिकारी (नगरपालिका) को प्राधिकृत करता है:—

- (i) उपयंत्री- समस्त विभाग
- (ii) परियोजना अधिकारी एकीकृत बाल विकास परियोजना
- (iii) पशु चिकित्सक
- (iv) सहायक यंत्री-समस्त विभाग

मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग के आदेशानुसार,
हस्ता./-

(जी. पी. श्रीवास्तव)

सचिव,

मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग, भोपाल.